



## नकली नोट की सबसे बड़ी खेप पकड़ायी 12 गिरफ्तार

BY RKHABAR ON FEBRUARY 15, 2020

- किसी पुरातत्व की वस्तु खरीदने का जाल था
- तेलंगना से यहां पहुंचा था पांच लोगों का दल
- बैंक अफसरों ने कर दी जाली करेसी की पुष्टि
- पुलिस का अभियान जारी और भी पकड़े जाने की उम्मीद प्रतिनिधि

**अलीपुरदुआर:** नकली नोट की **सबसे बड़ी** खेप पहली बार पकड़ी जा सकी है।

इस पूरे इलाके में लगातार नकली नोट के कारोबार की सूचनाएं और उसके आधार पर कार्रवाई भी हो रही थी। लेकिन पहली बार दो करोड़ बीस लाख रुपये का **जाली नोट** पकड़ा गया है। यहां के फलाकाटा इलाके में देश की सबसे बड़ी नकली नोट की इस बरामदगी के बाद आगे की कार्रवाई लगातार जारी है।

इस सिलसिले में अब तक संदेह के आधार पर 12 लोगों को **हिरासत में** लिया गया है।

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज शाम साढ़े सात बजे के बाद कुछ इलाकों की घेराबंदी की थी। इसी घेराबंदी के बाद कई अड्डों पर एक के बाद एक छापा मारा गया। इसी क्रम में इतनी अधिक मात्रा में नकली नोट बरामद किये जा सके हैं। खबर लिखने तक छापामारी का क्रम जारी है। पुलिस को संदेह है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। जिनके पकड़े जाने पर और भी जाली नोट बरामद किये जा सकेंगे।

इस घटना के बारे में पुलिस ने जो जानकारी दी है, वह भी हैरान करने वाली है।

पुलिस के मुताबिक किसी पुरातात्विक कीमती सामान खरीदने के नाम पर **तेलंगाना** के पांच लोगों को यहां बुलाया गया था। वैसे किस लोभ में यह लोग तेलंगाना से पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी छोर पर आये थे, इस बारे में अभी विस्तार से जानकारी नहीं दी गयी है। **बांग्लादेश की सीमा** पर किसी कीमती चीज की खरीद के लोभ में यह लोग पहुंचे थे।

**नकली नोट का यह कारोबार बांग्लादेश की सीमा पर**

इससे साबित हो गया है कि इस इलाके में जाली नोट के कारोबार के साथ साथ प्राचीन वस्तुओं की कालाबाजारी और फर्जीवाड़ा का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस को इसमें भारी मात्रा में नकदी के लेनदेन की गुप्त जानकारी मिली थी। इसी आधार पर पुलिस की **छापामारी हुई** तो वहां से बरामद नोट नकली पाये गये। इससे पुलिस का दिमाग और चौकन्ना हो गया। आनन फानन में बैंक अधिकारियों को बुलाकर इस नोटों की सच्चाई जानने का प्रयास किया गया। वहां पहुंचे बैंक अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के बाद ही इन नोटों को नकली नोट करार दिया। अब पुलिस इतनी अधिक मात्रा में नकली नोट यहां कैसे पहुंचे और इस नकली नोट के कारोबार में और कौन कौन शामिल हैं, इस बारे में **छानबीन** कर रही है।

Source: <https://www.rashtriyakhabar.com/biggest-recovery-of-fake-currency-notes-worth-2-crore-20-laks/>